

एफआईडीएफ क्या है?

भारत सरकार फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण में निजी उद्यमियों और मत्स्यपालकों को प्रोत्साहित करती है। 2022-23 तक 20 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 7522.48 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ **फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)** की स्थापना की गई है।

योजना की अवधि क्या है?

2018 - 19 से 2022 - 23 (पांच वर्ष)

FIDF के तहत कौन-कौन सी वित्तीय सहायता मिलती है?

- 1. ऋण की मात्रा :** एफआईडीएफ के अंतर्गत परियोजना अनुमानित / वास्तविक परियोजना लागत के 80 % तक ऋण के लिए पात्र होगी।
- 2. ब्याज अनुदान :** चिन्हित मात्स्यिकी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए प्रति वर्ष 3 % तक।

क्या हम PMMSy और FIDF दोनों स्कीमों के तहत अप्लाई कर सकते हैं?

नहीं। सब्सिडी और ब्याज सहायता एक साथ नहीं मिलती। किसी भी पात्र विशेष गतिविधि के लिए, वित्तीय सहायता PMMSY या FIDF के तहत ली जा सकती है, लेकिन दोनों के तहत नहीं।

लाभार्थी का अंशदान क्या होगा?

लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 20 % मार्जिन मनी के रूप में योगदान करना आवश्यक है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में मार्जिन मनी का योगदान अनिवार्य नहीं होगा।

एफआईडीएफ योजना के संचालन के क्षेत्र क्या हैं?

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में।

एफआईडीएफ योजना के लाभ?

- 1.) इकाइयों / क्षेत्र की संख्या की कोई सीमा नहीं
- 2.) मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 12 वर्ष है।

सभी पात्र संस्थाएं कौन हैं?

क.) राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश

ख.) राज्य के स्वामित्व वाले निगम / राज्य सरकार के उपक्रम / सरकार द्वारा प्रायोजित / समर्थित संगठन

ग.) मात्स्यिकी सहकारी संघ (फिशकोफेड आदि सहित)

घ.) सहकारी समितियां, मत्स्य किसानों और मत्स्य उत्पादन समूहों के सामूहिक समूह आदि।

ई.) पंचायत राज संस्थाएं / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / एनजीओ

च.) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सीमांत किसान, महिलाएं एवं उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और इनके सहकारी समितियां वगैरह ।

छ.) निजी कंपनियां / उद्यमी

ज.) शारीरिक रूप से अक्षम

झ.) सरकार द्वारा तय किया जाने वाला कोई अन्य संस्थान / इकाई

सभी पात्र निवेश गतिविधियाँ कौन हैं?

- 1.) फिशिंग हार्बर की स्थापना
- 2.) फिश लैंडिंग केंद्रों की स्थापना
- 3.) आइस प्लांट का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में)
- 4.) कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों क्षेत्रों में)
- 5.) मत्स्य परिवहन सुविधाएं (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र)
- 6.) एकीकृत कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र)
- 7.) आधुनिक फिश मार्केट का विकास
- 8.) ब्रूड बैंकों की स्थापना
- 9.) हैचरी का विकास
- 10.) जलीय कृषि का विकास
- 11.) राज्य मत्स्य बीज फार्मों का आधुनिकीकरण
- 12.) अत्याधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
- 13.) मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयाँ
- 14.) न्यूनतम 4 से 5 टन प्रतिदिन क्षमता वाली फिश फ्रीड मिलें/प्लांट
- 15.) न्यूनतम 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाली फिश फ्रीड मिलें/प्लांट
- 16.) जलाशय में केज कल्चर की स्थापना
- 17.) गहरे समुद्र में फिशिंग वेसल्स की शुरूआत
- 18.) रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना
- 19.) मेरी कल्चर का विकास (क) सी केज कल्चर
- 20.) मेरी कल्चर का विकास (ख) हैचरी

- 21.) मेरी कल्चर का विकास (ग) नर्सरी क्षेत्र
- 22.) मेरी कल्चर का विकास (घ) सीवीड / बाइवल्ब / पर्ल कल्चर
- 23.) जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना
- 24.) मत्स्य उत्पादन / उत्पादकता / मूल्य बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कोई अन्य नवीन परियोजनाएँ / गतिविधियाँ

नोडल कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है?

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) , हैदराबाद

नोडल ऋण संस्थाएं कौन हैं?

- **नाबार्ड** - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार की परियोजनाएँ
- **एनसीडीसी** - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम - सहकारी क्षेत्र या तो राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारी समितियों और संघों को
- **सभी अनुसूचित बैंक** - सभी निजी लाभार्थी / निजी उद्यमी ।

अनुसूचित बैंकों द्वारा एफआईडीएफ के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है?

पुनर्भुगतान की प्रक्रिया, ब्याज दर, दंडात्मक ब्याज, सुरक्षा और वित्त की सीमा का निर्णय अनुसूचित बैंकों द्वारा उनके वाणिज्यिक मानदंडों / नीतियों के अनुसार तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाएगा ।

ऋण की ब्याज दर क्या है?

प्रति वर्ष 5 % से कम नहीं ।

ब्याज अनुदान की व्यवस्था कैसे की जाएगी ?

इंटरेस्ट सबवेंशन a. नाबार्ड/NLE द्वारा उधार लेने की लागत (ब्याज, टैक्स, फीस, चार्ज वगैरह मिलाकर) प्लस 0.6% प्रति वर्ष का फंड मैनेजमेंट कॉस्ट और b. नाबार्ड/NLEs द्वारा EEs को दिए गए लोन पर लगाए गए ब्याज दर के बीच का अंतर होगा।

पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि क्या है?

मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 12 वर्ष ।

यदि भूमि पट्टे पर है तो कितने वर्षों का पट्टा आवश्यक है?

भूमि न्यूनतम 12 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए होनी चाहिए ।

डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे?

एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं :

क .) परियोजना के बारे में सामान्य विवरण .

ख .) भूमि दस्तावेज

ग .) विस्तृत लागत अनुमान (दरों की नवीनतम अनुसूची के अनुसार)

घ .) इंजीनियरिंग ड्राइंग और लेआउट

ङ .) सभी मशीनरी और उपकरणों के लिए कोटेशन .

च .) तकनीकी व्यवहार्यता

छ .) आर्थिक विश्लेषण और व्यवहार्यता

ज .) परियोजना की बैंकिंग योग्यता

झ .) परियोजना के लिए आवश्यक अनुमति

ट .) लाभार्थी अंशदान का विवरण

प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किये जाने हैं ?

एफआईडीएफ प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं । प्रस्तुत करने के लिए यहां क्लिक करें।

(या)

एफआईडीएफ के अंतर्गत रियायती वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) , मत्स्यपालन विभाग,

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,

कृषि भवन , नई दिल्ली - 110001

प्रस्ताव की एक प्रति नोडल कार्यान्वयन एजेंसी (एनआईए) को भी प्रस्तुत की जाएगी।

निम्नलिखित पते पर :

मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग,

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ,

पिलर नंबर : 235 , PVNR एक्सप्रेसवे, SVPNPA पोस्ट,

हैदराबाद - 500052 .

प्रस्ताव को कौन मंजूरी देगा?

संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) की अध्यक्षता वाली सेन्ट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CAMC)।

क्या लाभार्थी को CAMC बैठक के बारे में सूचित किया जाएगा?

हाँ, लाभार्थी को CAMC मीटिंग के बारे में एक ईमेल कम्युनिकेशन मिलेगा।

सीएएमसी द्वारा मंजूरी के बाद लाभार्थी को कहां संपर्क करना होगा?

लाभार्थी को उस अनुसूचित बैंक से संपर्क करना होगा जहां से लाभार्थी को सहमति मिली हो या किसी अनुसूचित बैंक में जाना होगा ।